

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19.10.2020

दुष्कर्म की घटना में करीब ढाई वर्षों से वांछित 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी सोमदत्त थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 19.10.2020 को थाना खुर्जानगर/खुर्जा जंक्शन पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधी एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ में मामूर थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक पुरस्कार घोषित अपराधी जो कई वर्षों से वांछित चल रहा है, कहीं जाने की फिराक में भिण्डौर मोड़ पर खड़ा है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान भिण्डौर मोड़ से घेराबन्दी कर पुरस्कार घोषित अपराधी सोमदत्त को समय करीब दोपहर 12.45 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सोमदत्त पुत्र कन्हैया निवासी लोको कालोनी मौजपुर थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सोमदत्त द्वारा दिनांक-10.06.2018 को थाना खुर्जानगर क्षेत्र लोको कालोनी मौजपुर निवासी एक महिला को अपने साथ ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में थाना खुर्जानगर पर मुअसं-771/18 धारा 366/376/328/506/507 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त सोमदत्त लगातार करीब ढाई वर्षों से फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जानगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. श्री मिथलेश कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जानगर
2. उ0नि0 बहादुर सिंह प्रभारी चौकी खुर्जा जंक्शन
3. का0 जयकुमार सैनी, का0 अवनीश कुमार, का0 संजय कुमार, का0 चालक राजीव कान्त गौड़